CA-17(44)/2024-25

9th August, 2024

The General Manager (MO) Bombay Stock Exchange	The Asstt. Vice President National Stock Exchange of India Ltd.
Through BSE Listing Centre	Through NEAPS

Sub: Extract of Newspaper Publication of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2024

Ref: Regulation 33 of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015: (Security ID:SAIL).

Dear Sir,

Please find attached copy of extract of newspaper publication of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of Steel Authority of India Limited, for the Quarter ended 30th June, 2024, published in English Newspapers (Financial Express & The Statesman) and Hindi Newspapers (Jansatta, Loksatya & Danik Jagran) on 9th August, 2024. This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully, For Steel Authority of India Limited

(M B Balakrishnan)
Executive Director (F&A) &
Company Secretary

Encl. As above.

इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली : 110 003, दूरभाष : 011-2436 7481-86, फैक्स : 011-2436 7015, वेबसाईट : www.sail.co.in Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi-110 003, **Phone** : 011-2436 7481-86, **Fax** : 011-2436 7015, **Website** : www.sail.co.in **PAN No. AAACS7062F** Corporate Identity No. L27109DL 1973 GOI006454



Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2024 (₹ Crore unless stated otherwise)

2.			Year ended		
SI. No.	Particulars	30" June, 2024	31st March, 2024	30 th June, 2023	31" March, 2024
	A TANAN CONTRACT OF THE PARTY O	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	23997.78	27957.99	24357.58	105374.59
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	326.02	1830.91	202.15	4528.51
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	14.26	1328.57	202.15	3687.67
3.4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	10.68	1011.22	149.83	2733.11
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(55.56)	1044.35	136.99	2610.94
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53
7	Reserves excluding revaluation reserve				50000.01
8	Securities Premium Account				235.10
9	Net Worth				54130.54
10	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt				36314.97
11	Debt Equity Ratio				0.67
12	Earnings per equity share (of ₹10/- each) (not annualised) 1. Basic (₹) 2. Diluted (₹)	0.03 0.03	2.45 2.45	0.36 0.36	6.62 6.62
13	Debenture Redemption Reserve	2919000		14080060	123.78
14	Debt Service Coverage Ratio				2.08
15	Interest Service Coverage Ratio (Number of times)				2.64

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2024

		CONSOLIDATED								
01		40	Quarter ended		Year ended					
SI. No.	Particulars	30th June, 2024	31st March, 2024	30th June, 2023	31" March, 2024					
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited					
1	Total Income from Operations	23997.81	27958.52	24359.10	105378.33					
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	409.85	1943.54	288.17	4902.65					
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	98.09	1441.20	288.17	4061.81					
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	81.78	1125.68	212.48	3066.67					
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	18.17	1181.50	202.27	2974.13					
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53					
7	Reserves excluding revaluation reserve				52970.69					
8	Earnings per equity share (of ₹10/- each) (not annualised) 1. Basic (₹) 2. Diluted (₹)	0.20 0.20	2.73 2.73	0.51 0.51	7.42 7.42					

Place: New Delhi

2. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30° June, 2024 filed with the Stock Exchanges under regulation 33 and 52° of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these Financial Results are available on the Stock Exchange websites of NSE and BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and under the Investor Relations section on the Company's website www.sail.co.in.

> For and on behalf of Board of Directors (Anil Kumar Tulsiani)

> > Director (Finance)

Dated: 8th August, 2024

Buy SAIL SeQR TMT bars for a strong home at www.sailsuraksha.com

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED There's a little bit of SAIL in everybody's life Registered office: Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi 110 003 Tel: +91 11-24367481, Fax: +91-11 24367015, E-mail: investor.relation@sail.in,

Website: www.sail.co.in CIN: L27109DL1973GO1006454

SAILsteel To Steel Authority of India Limited SAILsteel Official Steel Authority of India Limited

Inspirisys Solutions Limited

Regd. Office: First Floor, Dowlath Towers, New Door Nos. 57, 59, 61 & 63, Taylors Road, Kilpauk, Chennai – 600 010.

CIN: L30006TN1995PLC031736

Phone No. 044 4225 2000

Website: www.inspirisys.com; Email Id: sundaramurthy.s@inspirisys.com

Extract of the Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2024

(Rs.in Lakhs)

SI. No.	Particulars	3 Months ended 30th June, 2024	3 Months ended 31st March, 2024	3 Months ended 30th June, 2023	Year ended 31st March, 2024
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations	10,415	9,865	8,613	49,049
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	353	448	383	2,043
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	353	448	383	2,043
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	249	351	265	1,546
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	282	86	(171)	474
6	Equity Share Capital	3,962	3,962	3,962	3,962
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		53		(*)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) – 1. Basic: 2. Diluted:	0.63 0.63	0.94 0.94	(0.80) (0.80)	(0.93) (0.93)

1. The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter ended 30" June, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated financial results are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com & www.nseindia.com and also on the Company's website at www.inspirisys.com

Standalone

(Rs.in Lakhs)

SI. No.	Particulars	3 Months ended 30th June, 2024	3 Months ended 31st March, 2024	3 Months ended 30th June, 2023	Year ended 31st March, 2024	
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	
i.	Turnover	10,258	9,823	8,231	48,150	
ji.	Profit / (Loss) before tax	395	695	536	2,657	
iii.	Profit / (Loss) after tax	291	598	418	2,160	

- With respect to the standalone financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its respective meetings held on 08 August 2024. The standalone financial results are prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standards (IndAS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement(s), 2015 (as amended).
- The Trade Receivables balances of the Company as on 30 June 2024 comprises Rs. 4.079 Lakhs that are due from one of its wholly owned subsidiary, Inspirisys Solutions North America, Inc ("ISNA"). These balances pertain to receivables that are pending since 2018-19 and also comprise foreign currency receivables that remain unsettled beyond the stipulated period as permitted under the Foreign Exchange Management, Act 1999 (as amended). ISNA operates as the marketing arm for the offshore services provided by the Company to the US-based customers of ISNA. The aforesaid Trade Receivables balances of the Company reflect amounts due towards the services rendered and billed to ISNA for these offshore services. Over the years, ISNA has been responsible for procuring orders from its North American clients and coordinating the delivery of onsite and offshore services. The management of the Company has outlined business plans aimed at improving ISNA's performance and generating sufficient profits to clear the outstanding balances owed by ISNA to the Company. Consequently, the management of the Company believes that no loss allowance for expected credit losses against these receivables under Ind AS 109, Financial Instruments is necessary as at June 30, 2024. Additionally, the management of the Company has assessed and concluded that no loss allowance is required to be recognized for any Goods and Services Tax (GST) liability, including interest, that may arise due to the non-realization of export proceeds within the stipulated period as per sub-rule 1 of Rule 96A of the Central Goods and Service Tax (CGST) Rules, 2017. The impact of non-compliance with Clause C.20 of the Master Direction - Export of Goods and Services (Updated as on November 22,2022) for non-realization of export proceeds within stipulated timeline has been determined by management to be immaterial to the financial results of the Company for the guarter ended June 30, 2024. For Inspirisys Solutions Limited

Murali Gopalakrishnan Executive Director & Chief Executive Officer



CIN: L27310MH2008PLC188478

Registered Office: B1/B2, 7th Floor, 701, Marathon Innova, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra - 400013, India. Phone No.: +91 22 4882 1700 | Fax No.: +91 22 4882 1701 | Website: www.eurekaforbes.com | E-mail: compliance@eurekaforbes.com

			STAND	ALONE			CONSO	LIDATED	
Sr.	Particulars	1	Quarter ended		Year ended		Quarter ended	ı	Year ended
No.	r ai tioulai 3	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
	4	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations	55,497.69	55,516.88	50,709.86	2,19,775.57	55,571.98	55,544.84	50,682.88	2,19,802.97
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	4,155.85	3,935.53	3,105.08	13,755.24	4,318.44	3,958.60	3,565.07	14,362.27
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	4,155.85	2,420.63	3,105.08	12,240.34	4,318.44	2,443.70	3,565.07	12,847.37
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items*)	3,103.89	2,136.73	2,208.51	9,156.85	3,215.56	2,138.06	2,544.92	9,564.97
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3,045.05	2,059.07	2,078.50	8,920.97	3,162.44	2,060.72	2,408.82	9,352.27
6	Equity Share Capital	19,347.92	19,347.92	19,347.92	19,347.92	19,347.92	19,347.92	19,347.92	19,347.92
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet)	-	_	_	4,00,954.79	-	-	_	4,03,216.4
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:*	1.60 1.60	1.10 1.10					1.32 1.31	4.9 4.9

applicable.

Date: August 08, 2024

Place: Mumbai

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024 filed with BSE Limited under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and Company's website at www.eurekaforbes.com

The Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on August 08, 2024.

*Impact due to grant of ESOP's has been considered while arriving at the diluted EPS. #Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is

> For Eureka Forbes Limited **Managing Director & CEO DIN: 00751178**



SIGNATUREGLOBAL (INDIA) LIMITED

CIN: L70100DL2000PLC104787

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2024

(Rs. in million unless otherwise stated)

				Year ended	
S. No.	Particulars	30 June 2024 (Unaudited)	31 March 2024 (Unaudited) (Refer note - 3)	30 June 2023 (Unaudited)	31 March 2024 (Audited)
1	Total income	4,279.83	7,227.38	1,789.02	13,245.55
2	Net profit/(loss) for the period/year before tax	132.73	345.84	(84.82)	44.69
3	Net profit/(loss) for the period/year after tax	67.96	412.54	(71.80)	163.24
4	Total comprehensive income for the period/ year	58.28	411.52	(74.65)	161.56
5	Paid up equity share capital (face value of Re. 1 each)	140.51	140.51	124.85	140.51
6	Other equity				6,126.03
7	Earnings/(loss) per equity share (face value of Re. 1 each per share) (not annualised for the quarters)				
	Basic (Rs.)	0.48	2.93	(0.58)	1.22
	Diluted (Rs.)	0.48	2.93	(0.58)	1.22

In terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), this Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the guarter ended 30 June 2024 ("Unaudited Consolidated Financial Results") of Signatureglobal (India) Limited (the "Holding Company" or the "Company") and its subsidiaries (the Holding Company along with subsidiaries together referred to as "the Group") has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 07 August 2024 and have been subject to a limited review by the statutory auditors of the Company.

- 2 The Unaudited Consolidated Financial Results, for the guarter ended 30 June 2024 have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards 34, Interim Financial Reporting ('Ind AS - 34'), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the Act) and other accounting principles generally accepted in India and is in compliance with the presentation and disclosure requirement of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).
- The figures for the guarter ended 31 March 2024 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year ended 31 March 2024 and the figures for the nine months period ended 31 December 2023, which were subjected to limited review by the statutory auditors.

Key Standalone financial information is given below:

(Rs. in million unless otherwise stated)

_			Quarter ended				
S. No.	Particulars	30 June 2024 (Unaudited)	31 March 2024 (Unaudited)	30 June 2023 (Unaudited)	31 March 2024 (Audited)		
1	Total income	2,568.46	2,942.06	1,940.85	9,614.07		
2	Net profit/(loss) for the period/year before tax	(133.79)	(16.46)	39.33	117.62		
3	Net profit/(loss) for the period/year after tax	(133.79)	88.14	28.16	221.58		
4	Total comprehensive income for the period/year	(140.58)	87.49	25.95	219.38		
5	Paid up equity share capital (face value of Re. 1 each)	140.51	140.51	124.85	140.51		
6	Other equity				8,532.18		
7	Earnings/(loss) per equity share (face value of Re. 1 each per share) (not annualised for the quarters)						
	Basic (Rs.)	(0.95)	0.63	0.23	1.67		
	Diluted (Rs.)	(0.95)	0.63	0.23	1.67		

The above is an extract of the detailed format of quarter ended Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarter ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com/www.nseindia.com and Company's website at www.signatureglobal.in.

> On behalf of the Board of Directors Signatureglobal (India) Limited

Place: Gurugram Date: 7 August 2024

Ravi Aggarwal Managing Director

Registered office: 13th Floor, Dr. Gopal das Bhawan, 28, Barahkhamba Road, New Delhi-110001 Website: www.signatureglobal.in, Tel: 011 49281700, Email: cs@signatureglobal.in



: 08.08.2024

Place : Chennai

financialexp.epapr.in

New Delhi

THUMBNAILS

Rs 12 lakh looted from flat **in MP**: Two miscreants allegedly looted more than Rs 12 lakh from a flat in a building in M P Nagar area of Bhopal. The Bhopal police have announced a reward of Rs 30000 on the arrest of or for providing any information about the looters. According to the police officials, the miscreants reached flat number 108 in the Rachna Towers in the afternoon and knocked on the door taking the name of one of the company's employees. The company manager, Shyam Sundar, opened the door. The looters entered the flat and asked for some drinking water. When Sundar was going towards the kitchen to get water, one of the looters allegedly put a pistol to his head and asked for the

Relief and rescue operations continue on Kedarnath footpath: Rescue operation from the Kedarnath footpath is continuing for the sixth day on Tuesday amidst difficult adverse conditions, officials said. Many pilgrims and tourists are stranded on the Sonprayag-Kedarnath road as heavy rains lashed the state. As per the Rudraprayag district administration, about 150 local people have been sent from Kedarnath to Bhimbali under the supervision of NDRF and SDRF.

STATESMAN NEWS SERVICE

meeting with party's MP in

lower house to discuss a wide

range of issues including the

CVenugopal at the Parliament

House Annexe, Gandhi called

upon them to raise issues of

the people. "Discussed impor-

tant topics with my fellow

NEW DELHI. 8 AUGUST

money.

Prezon 3-day visit to NZ to strengthen ties

Governor General Dame Cindy Kiro receives Murmu at the Government House



STATESMAN NEWS SERVICE NEW DELHI, 8 AUGUST

esident Droupadi Murmu landed in Wellington, New Zealand this morning on the second leg of her threenation state Visit.

Governor General Dame Cindy Kiro of New Zealand received President Murmu at the Government House. She was welcomed with a traditional Maori "Pōwhiri" ceremony and accorded Royal

two leaders hailed the warm and friendly relationship between India and New Zealand and discussed cooperation across various sectors. They agreed on the need to

continue efforts to widen the scope of India-New Zealand economic relationship by establishing mutually beneficial collaborations and partnerships, especially through trade and businesses.

In her next engagement, President Murmu addressed the New Zealand International Education Conference, where India is the 'Country of Honour' this year.

including the National Education Policy aimed at transforming the Indian education landscape by promoting multidisciplinary learning, critical thinking and global competitiveness.

She added that New Zealand is renowned for its high-quality education with

The President encouraged

August as part of I-Day celebrations STATESMAN NEWS SERVICE Azadi Ka Amrit Mahotsav in forms, railways, civil aviation **NEW DELHI. 8 AUGUST** 2022 has grown into a people's

Union Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat on Thursday announced that the third edition of the "Har Ghar Tiranga" (HGT) campaign will be celebrated from 9-15 August as part of the Independence Day celebrations.

held discussions on various

issues ranging from deepening

of cultural ties to commitment

for regional and global secu-

Earlier, Deputy Prime Min-

ister and Foreign Minister

Winston Peters of New

Zealand also called on Pres-

ident Droupadi Murmu. Both

leaders acknowledged the

progress in bilateral relations

and deliberated upon ways

of enhancing cooperation.

floral tributes at the statue

of Mahatma Gandhi at

Wellington Railway Station

and laid a wreath to pay

tribute to martyred soldiers

at the Pukeahu National War

Memorial in Wellington. Gov-

ernor General Dame Cindy

Kiro joined the President on

both occasions.

The President also paid

Addressing a press conference in New Delhi, he said the initiative aims to instill spirit of patriotism and national pride among citizens by encouraging every Indian to hoist the national flag, the Tiranga. The minister urged the citizens to hoist the Tiranga at their homes and click a selfie with the flag and upload it on harghartiranga.com

He stated that the "Har Ghar Tiranga" campaign launched under the aegis of

KLJ DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

Regd. Office: KLJ House, 5" Floor, 8A-Shivaji Marg, Najafgarh Road,

New Delhi-110 015 Ph. No. 011-25194391/25458767

PUBLIC NOTICE

Whereas, KLJ Developers Private Limited ("the Company") has undertaken

development of a Group Housing Colony in Sector-77, Faridabad, over an area

measuring 50.325 acres in the revenue estate of Village Neemka, Sub Tehsi

Tigaon, District Faridabad, Haryana in terms of the provisions of Licence Nos. 3

to 9 of 2007 all dated 02,01,2007 and 157 of 2008 dated 08.08.2008, granted by

the completed part of the said Colony Occupation Certificates have been

And whereas, the layout plan/building plan in respect of Pocket-C (Phase-02

Part B & Independent Phase-03), of the said Colony is now proposed to be

And whereas, the office of Director, Town & Country Planning, Haryana,

Chandigarh has vide its Memo No. ZP-228 Vol-VI/AD(GK)/2024/24219 dated 01.08.2024 required seeking of objections against the revision of layout

plan/building plan as a pre-condition for allowing such revision in the layout

Accordingly, vide this public notice objections are hereby invited from the allottees in the said Colony on the proposed revision of the layout plan/building

plan of the said Colony. A copy of the earlier approved layout plan/building plan

bearing drawing No. Memo No. ZP-228/SD(DK)/2013/50406 dated 03.09.2013

and the layout plan/building plan now proposed to be revised bearing No.

HS/A-01 is available for perusal on our Website www.klidevelopers.com. The

said layout plan/building plans can also be perused at the site office of the

Company at KLJ Greens, KLJ Group Housing Colony, Sector-77, Faridabad as well

as in the office of Senior Town Planner, (Faridabad Circle), HUDA Office Complex

Any allottee having any objection on revised layout plan/building plan, may file

his/her objection in the office of Senior Town Planner, (Faridabad Circle), HUDA

Office Complex, Sector-12, Faridabad, Haryana, within 30 days of the

rector, Town & Country Planning, Haryana, Chandigarh ("said Colony"). Fo

movement, embraced by diverse segments of society Police Forces (CAPF) are across the country. In 2022, the national flag was hoisted at more than 23 crore homes and 6 crore people uploaded their selfies with the flag on harghartiranga.com. In 2023, over 10 crore selfies were uploaded under the HGT campaign.

'Har Ghar Tiranga' campaign from 9

Union Territories are actively participating in the celebrations, ensuring the campaign's success. Key industry partners-e-commerce plat- added.

sectors, the Indian armed forces, and the Central Armed also playing an active role in disseminating information and promoting the campaign.

Self-Help Groups across the country are actively contributing to large-scale flag production and availability. This collaborative effort is He said all States and turning the vision of honoring the National Flag into a reality and another milestone celebration of the people of India, by the people of India, he



NOTICE

The Petitioner above-named has filed a petition before the Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi for determination cum truing up of Transmission tariff for 2019-24 tariff block and determination of transmission tariff for 2024-29 tariff block for Petition-1: Asset-1: 01 no. 400kV line bay for NTPC Ltd at Bhadla-II Substation under 'Implementation of 400kV Bays for RE Generators at Bhadla-II PS

The beneficiaries of the Transmission system are: (a) Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd. (b) Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd. (c) Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd. (d) Punjab State Electricity Corporation limited (e) Haryana Power Purchase Centre (f) Jammu & Kashmir Power Corporation Ltd. (g) Uttar Pradesh Power Corporation Ltd. (h) BSES Yamuna Power Ltd. (i) BSES Rajdhani Power Ltd. (j) Tata Power Delhi Distribution Ltd. (k) Chandigarh Electricity department (I) Uttaranchal Power Corporation Ltd. (m) North Central Railway (n) New Delhi Municipal council (o) Himachal Pradesh State Electricity Board (p) Central Transmission Utility of India Ltd. (g) NTPC Ltd.

Particulars	Petition-1
Approved capital cost of the project (Rs. in lakh)	351.00 (FR)
Authority which has approved the Capital Cost	Chairman and Managing Director
Scheduled date of commercial operation	31.10.2022
Actual date of commercial operation	Asset-1: 27.07.2022
Capital cost on the date of commercial operation (Rs. in lakh)	Asset-1:100.16
	22/03/2019 00%

Details of fariff for 2019-24 block and 2024-29 block: (Rs. in lakhs) 2019-20 2020-21 2022-23 2023-24 2021-22 Asset 0.00 0.00 0.00 42.46 Asset-1 2028-29 2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 Asset 69.40 71.70 73.00 73.84 74.58 Asset-1

4. A copy of the petition made for determination of tariff is posted on the website www.powergrid.in The suggestions and objections, if any, on the proposals for determination of tariff

contained in the petition may be filed by any person, including the beneficiary through the e-filling portal of the Commission, with a copy to the Petitioner within 30 days of

Place: Gurugram Date: 02.08.2024

Shri V.C. Sekhar Senior General Manager (Commercial)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED (A Government of India Enterprise)

Registered Office: B-9, Quiab Institutional Arca, Katwaria Sarai, New Delhi - 110 016 Corporate Office: Saudamini, Plot No. 2, Sector-29, Gurugram, Haryana - 122 001 Website: www.powergrid.in CIN: L40101DL1989GOI038121

A MAHARATNA PSU

The President elaborated on the rich Indian tradition of pursuit of knowledge and Guard of Honour. the contemporary progress During their meeting, the in the field of education,

Rahul holds meeting with party's LS MPs

focus on research & innovation, inclusivity and excellence. Many Indian students are gaining access to quality education at various institutions in New Zealand.

more educational exchanges and collaboration between our institutions, particularly in the fields of Artificial Intelligence and Machine Learning, vocational and skills-based training, climate and environment studies, cultural exchange programs, research and innovation. Prime Minister Christopher Luxon of New Zealand also called on the President. Both the leaders

to discuss issues confronting the nation

on several issues."

"Discussion was held on ongoing situation in Bangladesh, China issue, judgements of the Supreme Court and today's business in Parliament," Gogoi told a news agency.

He said the Leader of Opposition in Lower House has asked the MPs to raise the issues concerning to the people in the House.

Meanwhile, Congress gen-

publication of this notice, failing which it shall be assumed that there are no objections to the proposed revision in the layout plan/building plan. For KLJ DEVELOPERS PRIVATE LIMITED Place: New Delhi (Sunil Andley) Date: 09.08.2024 Authorized Signatory



Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2024

		STANDALONE							
01	Particulars		Quarter ended		Year ended				
SI. No.		30" June, 2024	31" March, 2024	30 th June, 2023	31" March, 2024				
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited				
1	Total Income from Operations	23997.78	27957.99	24357,58	105374.59				
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	326.02	1830.91	202.15	4528.51				
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	14.26	1328.57	202.15	3687.67				
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	10.68	1011.22	149.83	2733.11				
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(55.56)	1044.35	136.99	2610.94				
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53				
7	Reserves excluding revaluation reserve				50000.01				
8	Securities Premium Account				235.10				
9	Net Worth				54130.54				
10	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt				36314.97				
11	Debt Equity Ratio				0.67				
12	Earnings per equity share (of ₹10/- each) (not annualised) 1. Basic (₹) 2. Diluted (₹)	0.03 0.03	2.45 2.45	0.36 0.36	6.62 6.62				
13	Debenture Redemption Reserve				123.78				
14	Debt Service Coverage Ratio				2.08				
15	Interest Service Coverage Ratio (Number of times)				2.64				

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2024

			CONSOLIDA		ess stated otherwise
	Particulars		Quarter ended	HIED	Year ended
SI. No.		30th June, 2024	31" March, 2024	30 th June, 2023	31" March, 2024
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	23997.81	27958.52	24359.10	105378.33
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	409.85	1943.54	288.17	4902.65
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	98.09	1441.20	288.17	4061.81
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	81.78	1125.68	212.48	3066.67
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	18.17	1181.50	202.27	2974.13
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53
7	Reserves excluding revaluation reserve	URBOS S	12000000		52970.69
8	Earnings per equity share (of ₹10/- each) (not annualised) 1. Basic (₹) 2. Diluted (₹)	0.20 0.20	2.73 2.73	0.51 0.51	7.42 7.42

 The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 8* August, 2024. The above is an extract of the detailed format of Linaudited Financial Results for the Quarter ended 30s June, 2024 filed with the Stock Exchanges under regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these Financial Results are available on the Stock Exchange websites of NSE and BSE at www.nssindia.com and www.bseindia.com respectively and under the Investor Relations section on the Company's website www.sail.co.in

> For and on behalf of Board of Directors (Anil Kumar Tulsiani)

> > Director (Finance)

Buy SAIL SeQR TMT bars for a strong home at www.sailsuraksha.com स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

There's a little bit of SAIL in everybody's life

Registered office: Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi 110 003 Tel: +91 11-24367481, Fax: +91-11 24367015, E-mail: investor.relation@sail.in. Website: www.sail.co.in CIN: L27109DL1973GO1006454 SAILsteel To Steel Authority of India Limited SAILsteel official Steel Authority of India Limited

Leader of the Opposition in the Lok Sabha (LoP) and former Congress president Rahul Gandhi on Thursday held a

Bangladesh and Chinese issue. Chairing the meeting with Congress' Deputy Leader in the Lok Sabha Gaurav Gogoi MPs in the meeting," the and party's general secretary in-charge of Organisation K leader of Opposition wrote

the meeting.

He, however, did not divulge the details of the meeting.

in a social media post after

was held. Rahul Gandhi was present. Discussion was held

The Congress deputy leader in the Lok Sabha, while referring to the meeting, said, "Today, a meeting of the Congress MPs of Lok Sabha

eral secretary in-charge of Organisation Venugopal in a post on Xwrote, "Lok Sabha MPs met under the leadership of LoP Rahul Gandhi ji in the Parliament House Annexe this morning."

SC agrees to hear plea seeking postponement of NEET-PG exam today

AGENCIES

NEW DELHI,8 AUGUST

The Supreme Court on Thursday agreed to hear on Friday a plea seeking directions to the National Board of Examination (NBE) to reschedule the Eligibility-cum-Entrance Test (NEET)-PG 2024, which is scheduled for August 11.

A bench headed by CJI D.Y. Chandrachud directed the registry to list the matter for hearing on Friday after advocate Anas Tanwir, representing petitioners, mentioned the plea for urgent listing.

The petitioners seek postponement of the exam on the ground that candidates have been allocated cities which are highly inconvenient formula for normalisation is unknown to them.

The plea seeks details and



disclosure of the formula for the normalisation of the four sets of question papers to eliminate any possibility of arbitrariness in the process.

"The examination will be conducted in batches...There is a likelihood that one batch of candidates may face a more difficult question paper than the other dynamic pricing, thereby batch. Therefore, it is prayed that the formula for normalisation should be disclosed

before the conduct of examinations thereby ruling out any fear of arbitrariness," it said.

Further, the plea stated that the allocation of test cities was made on July 31 and the specific centres are scheduled to be declared on August 8, and given such short notice it has become highly difficult for students to make arrangements for their travel to their specific cities.

"That more than two lakh students are scheduled to appear in the examination. The examination is scheduled to be held in 185 test cities, therefore, resulting in the non-availability of train tickets as well as the hiking of airfares due to making it almost impossible for a large number of students to reach their test centres,'

it added. Earlier, the NEET-PG,

which was scheduled to be held on June 23, was postponed by the Union Health Ministry in "best interests of the students and to maintain the sanctity of the examination process". "Taking into consideration

the recent incidents of allegations regarding the integrity of certain competitive examinations, the Ministry of Health has decided to undertake a thorough assessment of the robustness of processes of NEET-PG Entrance Examination, conducted by the National Board of Examination for medical students," the ministry said in a statement on June 22.

Last year, the top court petitions seeking postponement of the NEET-PG 2023

Global disruptions gave Indian defence industry an opportunity to up manufacturing capabilities: CDS

STATESMAN NEWS SERVICE **NEW DELHI, 8 AUGUST**

Chief of Defence Staff (CDS) General Anil Chauhan on Thursday said the global disruptions have presented an opportunity for the Indian Defence Eco-system to ramp up their defence manufacturing capabilities so that India transcends from being an importer to being an exporter of munitions, as well as, ammunition.

He was speaking at the Ammo India 2024 Conference organised by industry body FICCI here.

The CDS said the global geopolitical environment is in a state of flux.

"We are passing through an era of big global disruptions.



volatility, uncertainty, complexity and ambiguity (VUCA) of the World, the global arms industry is grappling with a seemingly insurmountable problem of widening demand

and supply gap," he stressed. Gen Anil Chauhan highlighted the importance of

Aatmanirbharta and selfreliance in defence and emphasised how it is central to attaining strategic autonomy for the nation. He mentioned various policy changes, reforms and the initiatives taken by the Ministry of Defence and the armed forces to promote Make in India

and Make for the World drive especially with respect to ammunition manufacturing.

Underscoring the significance of about Civil - Military Fusion, the CDS called upon the troika of the Services, Defence Industries and the Scientists including Academia to come together for promoting the nation's Aatmanirbharta drive.

The full day event has sessions discussing Ammunition requirements for Tanks & AFVs, Artillery, Air Defence, Aerial and Navy, Munitions for Unmanned Platforms, Loitering Ammunition and Futuristic Munitions as also Small Arms. The CDS also inaugurated an exhibition showcasing Atmanirbharta in munitions.

Place: New Delhi

Dated: 8" August, 2024

जनसता

एनडीआर ऑटो कम्पोनेन्टस लिमिटेड

पंजीकृत. कार्यालय: लेवल-5, रेगस कैडी कॉमर्सियल टावर, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट एयरोसिटी,

आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110037

CIN: U29304DL2019PLC347460

वेबसाइट: www.ndrauto.com, ईमेल: cs@ndrauto.com, फोन: +91 9643339870-74

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही तथा अवधि के लिए अंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

RAJARAMBAPU PATIL SAHAKARI **DUDH SANGH LTD., ISLAMPUR** Dist.: Sangli 415409, Maharashtra, Contact : 9096000151

E-Tender Notice for Sale of Cattle Feed Plant, Machinery, Plot & Building

The undersigned invites online tender from interested parties to purchase our Cattle Feed Plant. Machinery, Plot & Building on following address:-L-31, MIDC Kupwad, Dist.: Sangli (Maharashtra)

The application shall be submitted online in the website http://mahatenders.gov.in. Document Submission Start Date: 09/08/2024 11:00

AM. Up To 29-08-2024 05.00 PM.

Please refer tender document available on http://mahatenders.gov.in for details. Managing Director

न्यायालय श्रीमान जिला अधिकारी महोदय जनपद खीरी

वाद संख्या -614/2024

पंजाब एंड सिंध बैंक ब्रांच पलिया जनपद लखीमपुर खीरी

में, एजाज सटरिंग हाउस

1. में. दिव्या ट्रेडर्स स्वामी प्रेम प्रकाश कुशवाहा ग्राम सिंघल खुर्द सम्पूर्णानगर उत्तर प्रदेश 2. अशोक सिंह पुत्र जगरूप सिंह मकान संख्या 239 खराहना पलिया

लखीमपुर खीरी 3. जफर अहमद खान पुत्र मुहम्मद सफीक अहमद खान मोहल्ला पठान वार्ड

संख्या 4 पलिया कलां जनपद लखीमपुर खीरी रमेश कुमार पुत्र हर्ष नारायण राघवनगर पंडर उघम सिंह नगर किच्छा उत्तराखंड

एत्दद्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि पंजाब एंड सिंघ बैंक ब्रांच पलिया जनपद लखीमपुर खीरी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधोहस्तक्षरी के न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया गया है की आपके द्वारा उक्त बैंक के लिए गए ऋण का भूगतान अभी तक अदा नहीं किया गया है। अतः आप दिनांक – 23.08.2024 को समय 10.00 बजे दिन में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थिति होकर कारण स्पष्ट करे कि क्यों न वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पूनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की घारा 14(1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बैंक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में कथित संपत्ति को कब्जे में लेकर बैंक को ऋण की अदायगी वसूली के संबंध में दे दी जाये। यदि आप उक्त निर्धारित दिनांक व समय पर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित नहीं होते तो समझा जाएगा की आपको कुछ नहीं कहना है और तदनुसार नियमानुसार आदेश पारित कर दिए जाएगें।

अब तक छड़ाए नहीं गया है उनकी नीलामी 20.08.2024 को 10.00 बजे से शुरु कर दी जाएगी

जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर लखीमपुर खीरी



एनडीआर ऑटो कम्पोनेन्टस लिमिटेड पंजीकृत. कार्यालयः लेवल-5, रेगस कैडी कॉमर्सियल टावर, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्क्ट एयरोसिटी, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110037 CIN: U29304DL2019PLC347460

वेबसाइटः www.ndrauto.com, ईमेलः cs@ndrauto.com, फोनः +91 9643339870-74 30 जुन, 2024 को समाप्त तिमाही/अवधि के लिए अनंकेक्षित स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों का विवरण

	47	इकर रु. लाखों में)	II	6.7		(प्रति शं	ोयर डैटा छोड़कर	रु. लाखों में)			
क्र. —			समाप्त तिमाही	0	समाप्त वर्ष	क्र.		समाप्त तिम		W	समाप्त वर्ष
स .	विवरण	30/06/2024	31/03/2024	30/06/2023	31/03/2024	स.	विवरण	30/06/2024	31/03/2024	30/06/2023	31/03/2024
		(अनकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)			(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	17,209.59	17,697.68	12,922.12	60,671.56	1	परिचालनों से कुल आय	17,209.59	17,697.68	12,892.12	60,515.56
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	1,275.62	1,278.30	890.70	4,372.28	2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	1,473.26	1,481.88	1,053.21	4,945.08
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	1,275.62	1,278.30	890.70	4,372.28	3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	1,473.26	1,481.88	1,053.21	4,945.08
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	955.79	957.21	669.73	3,298.47	4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	1,153.43	1,160.79	824.42	3,871.27
5	अविध हेतु कुल व्यापक आय (अविध हेतु (कर के बाद) लाभ एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)				-	5	अविध हेतु कुल व्यापक आय (अविध हेतु (कर के बाद) लाभ एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)				
		954.11	946.38	671.08	3,291.73			1,150.55	1,141.29	826.94	3,859.40
6	इक्विटी शेयर पूंजी	1,189.27	1,189.27	1,189.27	1,189.27	6	इक्विटी शेयर पूंजी	1,189.27	1,189.27	1,189.27	1,189.27
7	अन्य इक्विटी (आरक्षितों) अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)		-	-	18,801.86	7	अन्य इक्विटी (आरक्षितों) अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	-	-	-	24,165.13
8	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)					8	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)				

27.74

प्रणव रेलन

क) मूल (रु. में)

ख) डाइल्युटेड (रु. में)

* वार्षिक को छोड़कर ईपीएस वार्षिकीकृत नहीं

क) उपरोक्त विवरण सेबी (सचीयन दायित्व तथा अन्य उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई स्टैंडएलॉन तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। तिमाही स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाईट (www.ndrauto.com) तथा बीएसई की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा एनएसई (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध

8.04

8.05

ख) इंड एएस-108 - ऑपरेटिंग सेगमेंट के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी दोपहिया वाहनों सहित ऑटोमोबाइल के लिए अलग-अलग सीटिंग सिस्टम और घटकों के विनिर्माण के व्यवसाय में लगी हुई है, जो एकल रिपोर्टिंग व्यवसाय खंड का गठन करती है और कंपनी केवल एक भौगोलिक खंड-भारत में काम करती है। तदनुसार, कोई अलग रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं हैं।

ग) उपरोक्त स्टेंडएलॉन वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 8 अगस्त, 2024 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टैण्डर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट (एसआरई) 2419 के अनुसार कम्पनी के विधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गयी है और उन्होंने उपरोक्त परिणामों पर असंशोधित रिपोर्ट

(घ) 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के आंकड़े, 31 मार्च, 2024 तक के पूर्ण वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित आंकड़ों और 31 दिसंबर, 2023 तक के अलेखापरीक्षित प्रकाशित वर्ष-दर-वर्ष के आंकड़ों के बीच संतुलनकारी आंकड़े हैं, जो वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही की समाप्ति की तारीख है. जो सीमित समीक्षा के अधीन थे।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

5.63

स्थानः गुरुग्राम पर्णकालिक निदेशक तिथि: 8 अगस्त, 2024

स्थानः गुरुग्राम

क) मूल (रु. में)

ख) डाइल्यूटेड (रु. में)

* वार्षिक को छोड़कर ईपीएस वार्षिकीकृत नहीं

क) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई समेकित तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। तिमाही समेकित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाईट (www.ndrauto.com) तथा बीएसई की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा एनएसई (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध

9.70

9.76

ख) एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड ('कंपनी') के उपरोक्त समेकित वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (आईएनडी-एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जो प्रासंगिक नियमों और संशोधनों और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित हैं।

(ग) 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के आंकड़े, 31 मार्च, 2024 तक के पूर्ण वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित आंकड़ों और 31 दिसंबर, 2023 तक के अलेखापरीक्षित प्रकाशित वर्ष-दर-वर्ष के आंकड़ों के बीच संतुलनकारी आंकड़े हैं, जो वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही की समाप्ति की तारीख है. जो सीमित समीक्षा के अधीन थे।

घ) उपरोक्त समेकित वित्तीय परिणामों की ऑडिट किमटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 8 अगस्त, 2024 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टैण्डर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट (एसआरई) 2419 के अनुसार कम्पनी के विधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गयी है और उन्होंने उपरोक्त परिणामों पर असंशोधित रिपोर्ट जारी की है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

6.93

6.93

32.55

तिथि: 8 अगस्त, 2024

प्रणव रेलन

पूर्णकालिक निदेशक

सोने की नीलामी सूचना MUTHOOT FINCORP LTD.

MSGB, SME Suvama & EMI due up to 30,06,2024 तक की अवधि के लिए कम्पनी की नीचे कथित शाखाओं में गिरवी रखें सीने के गहनें जिन्हें छुड़ाने का समय बीत चुका है तथा जिन्हें बार-बार सचना दिए जाने पर भी

CIN: U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427 सभी संबंधित व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 30.09.2023 & MSGL, SPL-16, One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure Gold loans up to 31.12.2023 and

First Floor, Civil Lines, 424, Bareilly-Mathura Road, Above IDBI Bank, Badaun, Uttar Pradesh - 243601. MATHURA-TERA TOWER: Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Tera Tower, Bhuteshwar Road, Near ICICI Bank, Mathura, Ultar Pradesh - 281004, FIROZABAD: Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, 265, Agra Gate, Opp. Bagh Chhingamal, Sadar Bazar Road, Beside jain Paints, Firozabad, Ultar Pradesh - 283203. PRIYADARSHANI NAGAR-BAREILLY: Muthoot FinCorp Ltd., First Floor, Mohini Tower, A-25/28, Above HDFC Bank, Priyadarshani Nagar, Bareilly, Uttar Pradesh - 243122. FT आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे फोटो पहचान-पत्र, पैन कार्ड प्रस्तुत करें। सफल निविदाकर्ताओं को पैसा RTGS द्वारा टांसफर करना होगा।



30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित एकल वित्तीय परिणाम का सार

		एकल				
20		- X	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
क. स.	विवरण	30 जून, 2024	31 मार्च, 2024	30 जून, 2023	31 मार्च, 2024	
		अनंकेक्षित	अंकेबित	अनंकेक्षित	अंकेबित	
1	प्रचालनो से कुल आय	23997.78	27957.99	24357.58	105374.59	
2	अवधि के लिए शुद्ध लाग / (हानि) (कर और अपवादात्मक मदों के पूर्व)	326.02	1830.91	202.15	4528.51	
3	अवधि के लिए कर पूर्व कुद्ध लाग / (हानि)(अपवादात्मक मदौ के पश्चात)	14.26	1328.57	202.15	3687.67	
4	अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)	10.68	1011.22	149.83	2733.11	
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [इसमें अवधि के लिए लाम / (हानि) (कर पश्चात) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल हैं]	(55.56)	1044.35	136.99	2610.94	
6	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (अकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक)	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53	
7	आरक्षित पूर्ण मूलयांकन आरक्षित छोड़कर	31054040404			50000.01	
8	प्रतिभृति प्रीमियम खाता				235.10	
9	गुद्ध मूल्य				54130.54	
10	चुक्ता ऋण पूंजी/बकाया ऋण				36314,97	
11	ऋग इक्विटी अनुपात				0.67	
12	अर्जन प्रति शैयर (₹10/- प्रत्येक) (वार्षिकी नहीं) 1. मूलभूत (₹) 2. डाइल्यूटेड (₹)	0.03 0.03	2.45 2.45	0.36 0.36	6.62 6.62	
13	डिबेचर रिडेम्पशन रिजर्व				123.78	
14	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात				2.08	
15	ब्याज सेवा कवरेज अनपात (संख्या)				2.64	

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणाम का सार

		समेकित समाप्त तिमाही					
क्र. स.	विवरण	31 मार्च, 2024	31 दिसंबर, 2023	31 मार्च, 2023	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2024		
		अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेद्दित		
1	प्रचालनो से कुल आय	23997.81	27958.52	24359.10	105378.33		
2	अवधि के लिए शुद्ध लाग/(हानि) (कर और अपवादात्मक मदों के पूर्व)	409.85	1943.54	288.17	4902.65		
3	अववि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाम / (हानि)(अपवादात्मक मदों के पश्चात)	98.09	1441.20	288.17	4061.81		
4	अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाम/(हानि)	81.78	1125.68	212.48	3066.67		
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (इसमें अवधि के लिए लाम / (हानि) (कर पश्चात) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल हैं]	18.17	1181.50	202.27	2974.13		
6	चुकता इक्विटी शेयर फूंजी (अंकित मूल्य ₹10 /- प्रत्येक)	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53		
7	आरक्षित पूर्ण मूलयांकन आरक्षित छोड़कर	72.00	77.00		52970.69		
8	अर्जन प्रति शेयर (₹10 /— प्रत्येक) (वार्षिकी नहीं) 1. मूलभूत (₹) 2. डाइल्यूटेड (₹)	0.20 0.20	2.73 2.73	0.51 0.51	7.42 7.42		

इन विशीय परिणामों की समीका ऑकिट समिति द्वारा की गयी है और 8 अगस्त, 2024 को आयोजित संबंधित बैठकों में निदेशक नंतल द्वारा स्वकृत किये गए हैं।

2. उपरोक्त 30 जून, 2024 को समाप्त शिमाड़ी के लिए अनकेंक्सित विशीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है. जिसे संबी (सूचीकद्भता दायित्व और प्रकटीकरण आयश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 और 52 के ताहत स्टीक एक्सचेंजों में दायर किया गया है। इन विशीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप एनएसई जीर बीएसई की स्टीक एक्सचेंज वेबसईटो जनश www.rseindia.com एवं www.bseindia.com एवं क्यानी की वेबसइट www.sail.co.in

> कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से अनिल कुमार तुल्सीआनी)

दिनांक: 8 अगस्त, 2024

स्थान : नई दिल्ली

यर निवेश संबंध अनुमाग के अंतरमर्त उपलब्ध है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED हर किसी की ज़िन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल

मजबूत घर के लिए सेल SeQR टीएमटी बार्स www.sailsuraksha.com पर खरीदें Registered office: Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi 110 003 Tel: +91 11-24367481, Fax: +91-11 24367015, E-mail: investor.relation@sail.in, Website: www.sail.co.in

CIN: L27109DL1973GO1006454 SAILsteel To Steel Authority of India Limited: SAILsteel official Steel Authority of India Limited



SIGNATUREGLOBAL (INDIA) LIMITED

CIN: L70100DL2000PLC104787

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2024

(Rs. in million unless otherwise stated)

			Quarter ended		Year ended
S. No.	Particulars	30 June 2024 (Unaudited)	31 March 2024 (Unaudited) (Refer note - 3)	30 June 2023 (Unaudited)	31 March 2024 (Audited)
1	Total income	4,279.83	7,227.38	1,789.02	13,245.55
2	Net profit/(loss) for the period/year before tax	132.73	345.84	(84.82)	44.69
3	Net profit/(loss) for the period/year after tax	67.96	412.54	(71.80)	163.24
4	Total comprehensive income for the period/ year	58.28	411.52	(74.65)	161.56
5	Paid up equity share capital (face value of Re. 1 each)	140.51	140.51	124.85	140.51
6	Other equity				6,126.03
7	Earnings/(loss) per equity share (face value of Re. 1 each per share) (not annualised for the quarters)				
	Basic (Rs.)	0.48	2.93	(0.58)	1.22
	Diluted (Rs.)	0.48	2.93	(0.58)	1.22

1 In terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), this Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended 30 June 2024 ("Unaudited Consolidated Financial Results") of Signatureglobal (India) Limited (the "Holding Company" or the "Company") and its subsidiaries (the Holding Company along with subsidiaries together referred to as "the Group") has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 07 August 2024 and have been subject to a limited review by the statutory auditors of the Company.

2 The Unaudited Consolidated Financial Results, for the guarter ended 30 June 2024 have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards 34, Interim Financial Reporting ('Ind AS - 34'), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the Act) and other accounting principles generally accepted in India and is in compliance with the presentation and disclosure requirement of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).

3 The figures for the quarter ended 31 March 2024 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year ended 31 March 2024 and the figures for the nine months period ended 31 December 2023, which were subjected to limited review by the statutory auditors.

Key Standalone financial information is given below.

(Rs. in million unless otherwise stated)

_			Year ended		
S. No.	Particulars	30 June 2024 (Unaudited)	31 March 2024 (Unaudited)	30 June 2023 (Unaudited)	31 March 2024 (Audited)
1	Total income	2,568.46	2,942.06	1,940.85	9,614.07
2	Net profit/(loss) for the period/year before tax	(133.79)	(16.46)	39.33	117.62
3	Net profit/(loss) for the period/year after tax	(133.79)	88.14	28.16	221.58
4	Total comprehensive income for the period/year	(140.58)	87.49	25.95	219.38
5	Paid up equity share capital (face value of Re. 1 each)	140.51	140.51	124.85	140.51
6	Other equity				8,532.18
7	Earnings/(loss) per equity share (face value of Re. 1 each per share) (not annualised for the quarters)				
	Basic (Rs.)	(0.95)	0.63	0.23	1.67
	Diluted (Rs.)	(0.95)	0.63	0.23	1.67

The above is an extract of the detailed format of quarter ended Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarter ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com/www.nseindia.com and Company's website at www.signatureglobal.in.

> On behalf of the Board of Directors Signatureglobal (India) Limited

> > Ravi Aggarwal

Managing Director

Registered office: 13th Floor, Dr. Gopal das Bhawan, 28, Barahkhamba Road, New Delhi-110001 Website: www.signatureglobal.in, Tel: 011 49281700, Email: cs@signatureglobal.in

Place: Gurugram

Date: 7 August 2024

नई दिल्ली , लोकसत्य

उत्तर रेलवे भारतीय रेलवे के सबसे

उत्तर भारत में सुरक्षित, कुशल और

बड़े मंडलों में से एक है, जो पूरे

विश्वसनीय रेल परिवहन सेवाएं

प्रदान करने के लिए समर्पित है।

दिल्ली मंडल यात्रियों और माल

ढलाई सेवाओं की बढती मांगों को

पूरा करने के लिए अपने बुनियादी

उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के

सिग्नल और दूरसंचार (एस एंड

टी) विभाग ने रेल बुनियादी ढांचे

और यात्री अनुभव को बढ़ाने के

की एक श्रृंखला शुरू की है। यह

उद्देश्य से प्रौद्योगिकी उन्नयन पहलों

संचालन को बदलने के लिए तैयार

है, जिससे रेलवे सेवाओं में अधिक

दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता

सुनिश्चित होगी। इन पहलों में

और उन्नत दूरसंचार अवसंरचना

और वास्तविक समय निगरानी

ढांचे के निरंतर सुधार और

दिल्ली सरकार अच्छी शिक्षा के लिए बना रही १४ नए स्कूल : आतिशी

 आजादी के बाद से 2014 तक कई सरकारें आई-गई लेकिन दिल्ली के स्कूलों में मात्र 24,000 कमरे ही बनें : आतिशी

नई दिल्ली, लोकसत्य। दिल्ली

अन्य डेवलपमेंट के लिए काम नहीं

नई दिल्ली, लोकसत्य

दिल्ली सरकार में तैनात रहे

राय पर मुकदमा

चलाया जाएगा

दिल्ली के

आईएएस

अधिकारी के

खिलाफ मुकदमा

चलाने की मंजूरी देते

हुए आगे की कार्रवाई के

दरअसल आईएएस अधिकारी

अवधियों के दौरान अपनी वार्षिक

उदित प्रकाश राय ने विभिन्न

प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट

(एपीएआर) पर दिल्ली व

अंडमान और निकोबार प्रशासन

जाली हस्ताक्षर करने के गंभीर

आरोप लगे थे। इस मामले में

भी दर्ज हुई थी। 2007 के

के मुख्य सचिवों के कथित रूप से

आईपी एस्टेट थाने में एफआईआर

आईएएस अधिकारी और सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबी

उदित प्रकाश राय ने 2017 और

2021 के बीच अपने समीक्षा

प्राधिकारी, दिल्ली के मुख्य

सिचव के कथित तौर पर जाली

उनके खिलाफ आईपीसी की धारा

465/471 के तहत जालसाजी

का एक आपराधिक मामला

विशेष सचिव (सतर्कता) की

शिकायत पर आईपी एस्टेट पुलिस

स्टेशन में मामला दर्ज किया है।

शिकायत के अनुसार, उदित राय

सिसोदिया के एमएलए फंड से पटपड्गंज

विधानसभा में दिए जाएंगे ५० वाटर कूलर

हस्ताक्षर किए थे। इस बाबत

उपराज्यपाल

वीके सक्सेना ने

आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश

सरकार की तरफ से बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए विभिन्न इलाकों में 14 स्कूल बनाए जा रहे हैं। साथ ही ऐसे स्कूल जहां पर क्लासरूम की कमी थी वहां पर क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार दिल्ली के बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए लगातार काम करती रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल की तरह अच्छी शिक्षा व



कर सकती। अरविंद केजरीवाल को बेहतर कार्य करने से रोकने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि तमाम मुश्किलों के बावजूद केजरीवाल सरकार के स्कूलों में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्टक्चर तैयार करने का काम जारी है। इस दिशा में वर्तमान में दिल्ली सरकार 14 नए स्कूल बनवा रही है।

2015 से अब तक

ने 1 अप्रैल 2017 से 8 अक्टूबर

2017 और 9 अक्टूबर 2017 से

लिए अपने एपीएआर में

अपने तत्कालीन

रिपोर्टिंग

प्राधिकारी

तत्कालीन

प्रमुख सचिव

(राजस्व)

एससीएल

हस्ताक्षर भी नकली

किए थे। यही नहीं

प्रशासन में और समीक्षा

प्राधिकारी, अंडमान एवं निकोबार

के तत्कालीन मुख्य सचिव अनिंदो

31 मार्च 2018 की अवधि के

एलजी की गृह मंत्रालय से सिफारिश

आईएएस अधिकारी

पर चलेगा मुकदमा

एवं अंडमान और

निकोबार के प्रशासकों

के किए थे जाली

हस्ताक्षर

लिए गृह मंत्रालय से सिफारिश की राय ने अंडमान एवं निकोबार

सरकारी स्कूलों में शब्द क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों की इमारतें प्राइवेट स्कलों से अच्छी हैं। स्कलों में स्मार्ट बोर्ड, अत्यधिक लैब लाइब्रेरी मल्टीपरपज हॉल स्मार्ट फैसिलिटी आदि हैं. दिल्ली किस सरकारी स्कलों में पढ़ने वाले बच्चे प्राइवेट स्कूल से अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा का रहे हैं।

 वर्तमान में सरकारी स्कूलों में बन रहे 1541 कमरे

मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम अभी बंद नहीं हुआ है। वर्तमान में दिल्ली में 14 सरकारी स्कल बन रहे हैं। जिन स्कलों में क्लास रूम की कमी थी और विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा थी वहां पर अतिरिक्त क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। वर्तमान में 1541 कमरे सरकारी स्कूलों में बना रहे हैं।

4000 बच्चों के लिए मंडावली-पटपड्गंज में बन रहा स्कूल

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के मंडावली, पटपड़गंज में केजरीवाल सरकार की शानदार स्कूल बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार है। आसपास इलाके के 4000 बच्चों को इसका फायदा होगा। गुरुवार को शिक्षा मंत्री आतिशी ने पीडब्ल्यूडी व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ इसका निरीक्षण किया। सर्वोदय कन्या/बाल विद्यालय की नई बिल्डिंग स्कूल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। जहां बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम, शानदार लैब, लाइब्रेरी, लिफ्ट सहित अन्य वर्ल्ड-क्लास सुविधाएं मौजूद है। इस स्कूल का निर्माण पूरा हो चुका है और फिनिशिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। निरीक्षण के दौरान शिक्षा मंत्री आतिशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द फिनिशिंग का काम पूरा कर स्टूडेंट्स को उनकी नई चमचमाती स्कूल बिल्डिंग समर्पित की जाए। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया के विधानसभा में बनकर तैयार हुई ये शानदार नई स्कूल बिल्डिंग हर बच्चे तक वर्ल्ड-क्लास शिक्षा पहंचाने के विजन का हिस्सा है।

उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल द्वारा प्रौद्योगिकी का उन्नयन

सेवाएं

बुनियादी ढांचे और यात्री अनुभव को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी उन्नयन पहलों की एक श्रृंखला शुरू की

है। ये संवर्द्धन परिचालन को सुव्यवस्थित करने, देरी को कम करने और रेलवे नेटवर्क में संचार आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उन्नत सिग्नल नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई है । उन्नत सिग्नल नियंत्रण प्रौद्योगिकी सिग्नल से संबंधित व्यवधानों के जोखिम को काफी कम करेगी और ट्रेन संचालन में सुधार करेगी। सुरक्षा और बेहतर रणनीतिक उन्नयन दिल्ली मंडल के ट्रेन संचालन से संबंधित विभिन्न कार्य निष्पादित किए जा रहे हैं। 2023-24 में कांधला, थाना भवन, मदलाना, शामली, बडौत, दिल्ली सफदरजंग और 2024-25 में अत्याधुनिक सिग्नल नियंत्रण प्रणाली पिल्लूखेड़ा, जींद सिटी, मडलौडा में इलेक्टॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है। अत्याधनिक प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन शामिल निगरानी प्रणाली ट्रेनों की आवाजाही पर वास्तविक समय का डेटा उपलब्ध कराएगी।

हर मोर्चेपर फेल दिल्ली सरकार को भग करें एलजी: विजेंद्रगुप्ता

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में गुरूवार को हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में हर मोर्चे पर विफल दिल्ली सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस अवसर पर प्रस्ताव पारित कर नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गप्ता ने उपराज्यपाल से केजरीवाल सरकार को भंग करने की मांग की गई। नेता प्रतिपक्ष गुप्ता ने विधिवत रूप से अपना पदभार संभाला। पद ग्रहण के अवसर पर नव निर्वाचित लोकसभा सांसद रामवीर सिंह बिधुड़ी भी उपस्थित रहे। गुप्ता ने कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह फेल हो गई है और इसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार को मॉनसून की तैयारी के लिए पहले ही मीटिंग करके सभी विभागों के साथ रणनीति बनानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी आप नेता भ्रष्टाचार के आरोप में पकडे गए मख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलाने की रणनीति पर ही काम कर रहे हैं। दिल्ली में बाढ जैसी स्थित उत्पन्न होने के बाद भी सरकार ने कोई सार्थक उपाय नहीं किए हैं।

उपराज्यपाल ने दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा की

नई दिल्ली, लोकसत्य

22,711 कमरे बनाए

2015 में दिल्ली की सरकारी

स्कूलों में मात्र 24000 कमरे थे।

यानी देश की आजादी के बाद दिल्ली

में जितनी सरकारें आई उन्होंने सिर्फ

दूसरी तरफ वर्ष 2015 से 2024 के

बीच अकेले आम आदमी पार्टी की

में 22,711 कमरे बनाएं। न सिर्फ

कमरे बनाए बल्कि दिल्ली के

सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कलों

24000 कमरा ही बनाएं। वहीं,

देश की राजधानी दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था अब और भी अधिक सुचारू ढंग से चलेगी। दिल्ली एलजी की ट्रैफिक ने सड़क किनारे व्यवस्था को और फ्लाईओवर के लेकर आज उपराज्यपाल नीचे पार्किंग पर वीके सक्सेना ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की।राज निवास के अधिकारियों ने बताया कि बैठक में जोन 1 और जोन 2 के विशेष यातायात आयुक्त और परिवहन आयुक्त मौजूद थे।

उपराज्यपाल ने ट्रैफिक पुलिस को सड़कों पर स्टाफ की संवेदनशीलता और उनकी मौजूदगी बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने यातायात पुलिस से ओवरलोडिंग और यात्री बसों में भीड़

भाड़ रोकने

के लिए

परिवहन जताई चिंता विभाग के साथ **77** संयुक्त टीमें गठित करने को कहा। उन्होंने सड़क के किनारे और फ्लाईओवरों के नीचे अवैध पार्किंग पर चिंता व्यक्त की है। कहा कि इससे आम यात्रियों को असुविधा

भी बनी रहती है। राज निवास के अधिकारियों ने बताया कि बैठक में यातायात पुलिस को एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें व्हाट्सएप पर ट्रैफिक चालान जारी किए जाते हैं। उन्हें इस प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि इससे ट्रैफिक का उल्लंघन करने वालों को चालान के बारे में समय पर जानकारी मिलेगी। साथ ही

उन्हें कहीं भी और कभी भी चालान का भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। इससे चालान से वसली की दर भी बढेगी। उपराज्यपाल ने एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए यातायात उल्लंघन, चालान जारी करने और वसूली के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एआई-आधारित स्वचालित नंबर प्लेट की पहचान के लिए कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए। उपराज्यपाल ने परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के बीच बेहतर समन्वय का भी आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों से यातायात को कम करने के लिए आईएसबीटी कश्मीरी गेट को स्थानांतरित करने की योजना प्रस्तुत करने को भी

नीएडा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा, गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.)

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

अर्ह निविदाकारों से निम्न जॉब हेतु ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है, जिन्हें निम्नानुसार तिथियों तक अपलोड किया जा सकता है एवं प्राप्त ई–निविदाओं को उनके सम्मुख दर्शायी गई तिथियों पर खोला जाएगा। निविदा संबन्ध म समस्त विवरण व शर्ते नौएडा प्राधिकरण की अधिकारिक website: www..noidaauthorityonline.in & https:///etender.up.nic.in. पर उपलब्ध है। किसी परिवर्तन, संशोधित एवं अतिरिक्त सचनाओं के लिए उक्त वेबसाइट देखते रहें। रि निविदा कार्य :--

क्र. सं.	जॉब संख्या	कार्य का नाम	ानावदा का घनराशि (रू० लाख में)
1.	13 / उ०म०प्र० (वि / याँ) / व०प्र० (वि / याँ) 3 / 2024—25	सैक्टर-14-15 के बीच की रोड, सैक्टर 15, 15ए, 16, 16ए, 17, 18, डी०एस०सी० रोड, एम.0 पी-2 रोड हाजीपुर रोड, सैक्टर'96 रोड सैक्टर-99 एवं 100 में 63के0वी0 ट्रान्सफार्मर के रिपेयर का कार्य।	Rs. 41.22
2.	15/उ०म०प्र०/वरि० प्र०— (वि०/यॉ०) —II/2024—25/ ई०नि०	नौएडा के विभिन्न स्थानों पर 4-वे जंक्शन पर ट्रैफिक सिग्नलों को सुदृढीकरण करने का कार्य।	Rs. 44.32

उपरोक्त निविदा को दिनांक 16.08.2024 सायं 5.00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है प्राप्त ई–निविदाओं की प्री–क्वालिफिकेशन दिनांक 20.08.2024 को 11.00 बजे खोली जायेगी **उप महाप्रबन्धक (वि०/यॉ०) नौएडा**

स्वच्छ, हरित, सकुशल, सुरक्षित नौएडा

कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में मिला प्रतिनिधिमंडल

मजूमदार के हस्ताक्षर भी फर्जी किए थे। इसके अलावा 1 अप्रैल 2019 से 30 जुलाई 2019 की अवधि के लिए एपीएआर में, राय नई दिल्ली, लोकसत्य। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र ने रिपोर्टिंग प्राधिकारी, प्रशासन यादव के नेतत्व में प्रदेश कांग्रेस के में तत्कालीन प्रमुख सचिव प्रतिनिधमंडल ने दिल्ली की जनता (राजस्व) विक्रम देव दत्त के हस्ताक्षर और समीक्षा प्राधिकारी. से जुड़े कुछ विषयों के संबध में चेतन भूषण सांघी के हस्ताक्षर उपराज्यपाल वीके सक्सेना से जाली बनाए, जो तब अंडमान मलाकात की। यादव ने बताया कि एवं निकोबार के तत्कालीन उपराज्यपाल से दिल्ली के मौजूदा मुख्य सचिव थे। गौरतलब है कि मामलों पर एक घंटा लंबी चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने सभी मामलों को गौर इन अवधियों के दौरान राय अंडमान एवं निकोबार प्रशासन से सुना और आश्वासन दिया कि में डीएम के पद पर तैनात थे। प्रदेश कांग्रेस द्वारा रखे गए पहलुओं दिल्ली में अपने स्थानांतरण के सकारात्मक सोच के साथ कार्यवाही की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश बाद राय को दिल्ली सरकार ने निदेशक (शिक्षा) के रूप में अध्यक्ष देवेंद्र यादव के अलावा तैनात किया था और उन्हें अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व

वाली आम आदमी पार्टी सरकार

का करीबी विश्वासपात्र माना

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री मंगतराम सिंघल, कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, पूर्व मेयर फरहाद सुरी, पूर्व विधायक जय किशन के साथ भलस्वा डेयरी सहित अन्य डेयरियों के मालिक भी मौजद थे।

होती है और सड़क सुरक्षा की चिंता

राज निवास से बाहर निकलने के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि जल भराव के कारण गाजीपुर के नाले में जिस तरह एक मां और उसके बच्चे की नाले में डुबकर मौत हुई और राजेन्द्र नगर में बेसमेंट में डूबने से तीन छात्रों की मौत से अवगत कराया।



पावरग्रिड **POWERGRID**

 ऊपरलिखित याचिकाकर्ता ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष 2019—24 के टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण शुल्क के निर्धारण सह सही करने और याचिका—1: संपत्ति—1: 1 संख्या 400 केवी खण्ड के लिए एनटीपीसी लिमिटेड के भादला-॥ सबस्टेशन में "भादला-॥ पीएस और फतेहगढ-।। पीएस में आरई जनरेटर के लिए 400 केवी खण्ड के कार्यान्वयन" के तहत 2024-29 के टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण शुल्क के निर्धारण के लिए याचिका दायर की है।

2. उपर्युक्त ट्रांसिमशन प्रणाली के लामार्थी हैं (ए) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (बी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (सी) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डी) पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (ई) हरियाणा पावर परचेज सेंटर (एफ) जम्मू और कश्मीर पावर ≤ कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जी) उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (आई) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (जे) टाटा पावर दिल्ली डिस्टीब्युशन लिमिटेड (के) चंडीगढ़ बिजली विभाग (एल) उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एम) उत्तर 🕽 मध्य रेलवे (एन) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (ओ) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (पी) 🎖 सेंट्रल ट्रांसिमशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्यू) एनटीपीसी लिमिटेड

विवरण	याचिका—1
परियोजना की अनुमोदित पूंजीगत लागत (रुपए लाख में)	351.00 (एफआर)
प्राधिकरण जिसने पूंजीगत लागत को मंजूरी दी है	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
वाणिज्यिक संचालन की निर्धारित तारीख	31.10.2022
वाणिज्यिक परिचालन की वास्तविक तिथि	संपत्ति-1: 27.07.2022
वाणिज्यिक परिचालन की तिथि पर पूंजीगत लागत (रुपए लाख में)	संपत्ति—1: 100.16

3. 2019-24 ब्लॉक और 2024-29 ब्लॉक के लिए टैरिफ के विवरण:

संपत्ति	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
संपत्ति–1	0.00	0.00	0.00	42.46	75.27
संपत्ति	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
संपत्ति—1	69.40	71.70	73.00	73.84	74.58

www.powergrid.in पर पोस्ट की गई है। 5. याचिका में निहित टैरिफ निर्धारण के प्रस्तावों पर सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, लाभार्थी सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से दायर की जा

सकती हैं, जिसकी एक प्रति इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर भी भेजी जाएगी। स्थानः गुरुग्राम श्री वी.सी. शेखर वरिष्ठ महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः थी-9, कुतुव इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110 016 कॉर्पोरेट कार्यालयः सौदामिनी, प्लॉट नंबर २, सेक्टर-29, गुरुग्राम, हरियाणा-122 001 वेबसाईट: www.powergrid.in सीआईएन: L40101DL1989GOI038121

एक महारत्न पीएसयू



30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित एकल वित्तीय परिणाम का सार्

	एकल					
			समाप्त वर्ष			
क्र. स.	विवरण	30 जून, 2024	31 मार्च, 2024	30 जून, 2023	31 मार्च, 2024	
		अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	
1	प्रचालनों से कुल आय	23997.78	27957.99	24357.58	105374.59	
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर और अपवादात्मक मदों के पूर्व)	326.02	1830.91	202.15	4528.51	
3	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि)(अपवादात्मक मदों के पश्चात)	14.26	1328.57	202.15	3687.67	
4	अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ / (हानि)	10.68	1011.22	149.83	2733.11	
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [इसमें अवधि के लिए लाम/(हानि) (कर पश्चात) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल हैं]	(55.56)	1044.35	136.99	2610.94	
6	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹10 /- प्रत्येक)	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53	
7	आरक्षित पूर्ण मूलयांकन आरक्षित छोड़कर				50000.01	
8	प्रतिभृति प्रीमियम खाता				235.10	
9	शुद्ध मृत्य				54130.54	
10	चुकता ऋण पूंजी / बकाया ऋण				36314.97	
11	ऋण इक्विटी अनुपात				0.67	
12	अर्जन प्रति शेयर (₹10 /— प्रत्येक) (वार्षिकी नहीं) 1. मूलमूत (₹) 2. डाइल्युटेड (₹)	0.03 0.03	2.45 2.45	0.36 0.36	6.62 6.62	
13	डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व				123.78	
14	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात				2.08	

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणाम का सार

		समेकित					
क्र. स.			समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		
	विवरण	31 मार्च, 2024	31 दिसंबर, 2023	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024		
		अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित		
1	प्रचालनो से कुल आय	23997.81	27958.52	24359.10	105378.33		
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर और अपवादात्मक मदों के पूर्व)	409.85	1943.54	288.17	4902.65		
3	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि)(अपवादात्मक मदों के पश्चात)	98.09	1441.20	288.17	4061.81		
4	अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ / (हानि)	81.78	1125.68	212.48	3066.67		
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [इसमें अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर पश्चात) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल हैं]	18.17	1181.50	202.27	2974.13		
6	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मृल्य ₹10 /- प्रत्येक)	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53		
7	आरक्षित पूर्ण मूलयांकन आरक्षित छोड़कर			1110111110	52970.69		
8	अर्जन प्रति शेयर (र10 /— प्रत्येक) (वार्षिकी नहीं) 1. मूलमूत (र) 2. डाइल्युटेड (र)	0.20 0.20	2.73 2.73	0.51 0.51	7.42 7.42		

कते एवं निदेशक मंडल की ओर से

2.64

(अनिल कुमार तुल्सीआनी)

Registered office: Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi 110 003 Tel: +91 11-24367481, Fax: +91-11 24367015, E-mail: investor.relation@sail.in, Website: www.sail.co.in

हर किसी की ज़िन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल CIN: L27109DL1973GO1006454 SAILsteel To Steel Authority of India Limited SAILsteelofficial Steel Authority of India Limited

लोकसत्य मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक व मुद्रक राहुल शर्मा 'सरस' द्वारा 27-A, साउथ गणेश नगर दिल्ली से प्रकाशित एवं लोकसत्य मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, 7/7 साइट-IV, औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, गाजियाबाद, (यूपी) से मुद्रित। संपादक: राहुल शर्मा 'सरस' [आरएनआई DELHIN/2010/35009] (समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।) मार्केटिंग आफिस : 20/2/9, साइट-IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद, (यूपी) फोन नं : 0120-4540962

नई दिल्ली, लोकसत्य मनीष सिसोदिया की विधानसभा में

उनके निर्देश पर एमएलए फंड से उकनी टीम के सदस्यों द्वारा 50 वाटर कुलर लगाए जाएंगे। अभी तक टीम मनीष के सदस्यों द्वारा 20 वाटर कूलर लगा दिए हैं, जबकि 30 और वाटर कूलर अगले सप्ताह तक क्षेत्र की जनता को उपलब्ध करा दिए

दरअसल, पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से वाटर कूलर की मांग की जा रही थी। वाटर कूलर न होने से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। पूर्व मंत्री मनीष

 $\bullet \bullet \bullet +$

से अब तक 20 वाटर कूलर का वितरणकियाजा चुका

 अगले सप्ताह तक बाकी 30 और वाटर कूलर विघानसभा क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे

सिसोदिया को क्षेत्र की जनता की मांग से अवगत कराया गया। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने अपने क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एमएलए फंड से अपनी टीम को 50 वाटर कुलर मुहैया कराने का निर्देश दिया।

टीम मनीष के सदस्यों की ओर

••••+

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 8 अगस्त, 2024

(रु. लाख में)



स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

 $\overline{\bullet \bullet \bullet \bullet +}$

चुनाव आयोग से बोले राजनीतिक दल- विस चुनाव में न हो विलंब

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचा

राज्य स्पृद्धे जागरण, श्रीनगर: तम्म्-करमीर में विधानसभा चुनाव मे अब और विशेष नहीं होना पारिए सभी राजनीतिक दलों को करकरें के उनकार पर चुनाव उचार क अबकर निले, सभी के साथ समन अवसर त्यात, रूप जाकार हो और किसी की सुरक्ष के साथ प्रभुवात न हो। का दौर क साथ प्रश्नात न हो। कह दौरा किया पुरुषात न की कह दौरा किया पुरुषात तक बीमित वहीं कन प्रविद्धा जम्मू-कर्मात की जनता को एक निक्षित संस्थान जनत का पूक तिकारित सरकार पारिष् और पुनव आर्थे के विभागसम्ब पुनव का गीत पुन्त करून पारिष् में अनुव भी और मुद्दे दुस्कर की अपनु कर्मार के विभन राजनीतिक दल्ते के नेताओं रे भुगाव आयोग के बाथ आएं बेहबों में दहार।



अस्- कामीर में गुरुवार को पुनव की तैवारियां देखने भी नगर वहुपे मुखा पुनव अपुनव राजीय कुमार (सच्य) समेव अन्य अधिकारी के दि

अक्टूबर में हो सकते हैं विस चुनाव और राज्य के दर्ज की घोषणा भी : आदवते

केंद्रीय समाजिक न्याद एवं अधिकारित राज्यमंत्री रामधान अध्यक्ष ने गुरुवार को उम्मीद कार्य कि तम्मू-कार्यात में बनी वह अब्दुबर में विकासक पुनव हो सकते हैं। अब्दुबर से वहने जम्-वार्यात वो राज्य का दर्ज देने को चोषणा भी ही सकते हैं। आहवते ने कहा कि हात ही में साम्न हुए लोकसभा पुनव में जम्मू-कामीर में मतवान विवाद ने 25 की का रिकार्ड तीज है। इस्तीन मुझे उम्मीवह कि मिकट मर्विष्ण में होने वाले विधानसभा पुनव में हमें 90 प्रतिवात तक मतदान देखते को मिलेंग।

मुख्य पुरुष आयुक्त राजित राजेंद्र साथ पुराद आयुक्त हालेल आयोग ने जन्मू-कर्मार के सभी कुमार के नामुक्त में पुराब आर्थर कुमार और इस्सूस आई हैं। जिला पुराब अधिकारियों व जिला कब्यू-कर्मार के हैं डिप्पार्थ में दे राजनीतिक दानें के अधितियों (सहस्य) के साथ केंद्र कर हात्र पर दुवार सुक्त प्रीनार प्रदेश से मुनाकाल करने के बाद पुराब परिदृष्ट और पुनास संबंधी निर्माणी

कर जावका जिला। धन्योंने जम्मू-स्वत्येत के पूरत निर्धायन अधिकाती सदुतन के पोर्ग के साथ भी केटक की। शूक्रकर को भूगाव अर्थाग जम्मू में क्रियान सुरक्षा एजेंकियों के अधिकारोंकों से भेट कर युनाव के

अध्यक्षयांची से पेट कर पुनाव के मंदर्भ में सुरक्षा परिद्वान और सुरक्षा प्रकार के प्रथमता अन्दर्श प्रकार के प्रथमता अन्दर्श प्रकार के प्रथम सुनीम कोई में और से 30 रिताब से परने विभागक्षया के मत्तर के विदेश की एक दिखाना। नेमाना कार्योंचा के स्वार्थन प्रधान में स्थान के संभागेत प्रचान चरित असलम वाने ने क्या, शमने पुत्रव अवनीत से मांग परे कि जन्मू-कस्पीर बं जनता पूनी हुई सरकार चलते हैं।

विलासपुर से दिस्सी आ रहा विमान प्रयागराज एयरपोर्ट घर रोट्य गया । सूचन हो गाँ कि समें बहा उत्तर लग

ज्याते, क्यानस्तरः वितासपुर से वाय वयस्त्रात्र होयर दिल्ली ज्य रहे चलाइस चयर की उन्हमभूरुवार की व्यवस्थात

प्रदेश की प्रमाण कर कर पारावार । पहरोगों के प्रमाण के कार के प्रत्यान । पहरोगों के प्रमुक्त के बाद अपनक नर । तीरहें को तीरह कि प्रिमण के प्रदेश के बाद अपनक । अपने ने निवाह का पहरोगों कर पहुंचन के बाद अपनक नर । तीरहां क्षा च । प्रतिकों की निवास के अपन

कर दी गई। व्यक्तिय ने नवंबती कर विकेश अतारा प्रीक्षित कर शिवरमूह से व्यक्तियों की तेकर विमान प्रकारता से



दामुना एक्सप्रेस्ते औद्योनिक विकास प्राधिकरून १४ (IDA) १९११ (१९) १९० (१९) १९० (१९) १९० (१९) १९० (१९) १९० (१९) १९११ (१९० १९, १९०६) १९ (१९) १९०० (१९)

सार्वजनिक सूवना

निविदा भूमि गपुण एक्सप्रेसने औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आपसी सहमति के आधार पर काला र प्रशासित है। क्रम हेतु काश्वकर द्वारा गहचील चै गाटा चंदम, शेवधल व काश्वकार का हिर यपलब करई गई है, जिलका विकरण निर्मानिकित तालिका में अकित है-

-	ग्राम बनीरी, सैक्टर-16 पार्ट-02							
				कशो का कुत वेत्रकत (देव में)	स्त्रवेदार का नान र रक्ष	ग्रहसील से प्राप्त रिपोर्ट से बाधार पर कारतसार का दिश्या (देंट में)	विक्रम हेतु	
t	年刊的 (作610)	100	1713मि	0.0270	श्री प्रगोद खुमार पुत्र संजाधै पि० प्राम	सम्दर्भ	5,0270	

तपरोक्त भूमि क्रय किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई बापरित है तो यह लिखित ऋप में 16 दिन के अन्यर क्षपर पुरुष कर्रायालक अभिकारी, यनुना एक्सप्रेसचे औद्योगिक विकास प्राप्तिकरण कार्यालय में अपनी आपरि ह०/- विन्दी क्लेक्ट बनुना एक्सप्रेसने प्राधिकरण

प्रोतिक जिल्ला अधिकार में अभिन्द्रिया देश में प्रतिकार उस स्त्रीका अध्यान क्ष्या के प्रतिकार में अभिन्द्रिया कोरोरी या किसी थी अवार का अपन जिल्ला पूर्ण ताल से अवैत है। कामण्यात हम अवार या स्त्रीय में तथा जीरोजावार से आज विकासों से बंदी अधिक अवस्थारी से जिल्ला जीतिया व्यवस्थारी से जिल्ला प्रतिकार



ई-निविदा आमंत्रण सूचना

भिन्निरिविध्य कार्य केष्ट्र क्षेत्र कारणार/पान्य सरकार/केष्य प्राणिय/क्यांस्थिए/पार्वव्यक्तिक प्रथमने के बाजी क क्ष्म से तम चार नर्ष का क्ष्मुला रुकने मात्रे ठेनेवारों/धर्मा के ई-निरिव्धनें क्षमन्त्रित की वार्ती है। ई-धीनपोर्टिय प्रोत्कृतन द्वारा निर्विधने शिक्सकेत च्यारि से बोली जायेगी।

कारोलय कार्रेस परिवार : mil.\$=/GMP/P/20248030 विशोध का.cs.2026 के अनुस्तालन में समुत्त एनस्त्रेशने जीकोगिक कितन प्रतिकारण की कार्यों ने संविद्याकार द्वारा विश्त खोक कार्याच्या (विश्लाधक्कु) पर काले गर्ने १० प्रतिकार जन पार्टी एक 64 प्रतिकार की एक प्रतिकार कमार पर शास्त्र काले नामार १० प्रतिकार की कार्यों का प्रतिकार की एक एक एक प्रतिकार का पर पर शास्त्रिक का पार्टी पर १,00 प्रतिकार प्रति एक प्रतिकार का पर पर परिकारीयों हैं परिवार मान्या प्रतिकार की प्रतिकार की प्रतिकार कार्यों का प्रतिकार की प्रतिकार का पर परिकारीयों की प्रतिकार के प्रतिकार की प्रतिकार की प्रतिकार कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों की प्रतिकार की प्रतिकार की प्रतिकार क्षेत्र की न्यूनाल संविद्याकार द्वारा अनुस्त्र गठन से पूर्व देनी होगी, जो कार्य के व्यक्तित रोजक होने से बाद शायिस होगी।

av vis	कार्य का नाग/वर्ज सर्विज	अनुसनित सागव
1	Patri dressing, Kerb stone repairing and white wash on central verge of 45mtr. And 100mtr. Wide road in sector-24, YEA WC-04	ए. १३.३३ लख
	Providing and laying interlocking tiles and brick drain in Village- veerampur yea Wo-06	年. 38.04 円根
	Construction of 2nos. tubewell with rising main for OHT in sector-16, YEIDA WC-01	फ. १००३१ साख

विन्हें दिनांक 13.08.2024 से 23.08.2024 को 500 गड़े तक बापतीड़ किया जा सकता है। प्राप्त ई-निविद्धवों की प्री-कारतिकिनेतान दिनांक 28.08.2024 को प्राप्त 11.50 को कोड़ी जायेगी।

कम संव	कार्य का नाग/दर्ज सर्वित	अनुमानित स्तागव
	Re-Development of 45mtr. Wide road and RCC drain in sector-29 (part-A), YEA WC-04	A. 84700 MM
	C/o Balance 60m wide roed both side Carriageway and Service road between pocket A, B, C, D and Q, R, S in Sec-20 yea Wo-02	

जिन्हें हिनाक 13.06.2024 से 28.06.2024 को 500 बजे तक अपलोक कि प्री-क्वालीकिकेशन दिनांक 28.08.2024 को प्राप्त 11.00 करने खोली जायेगी।

हैं। इच्युक टेकेटारों से अनुरोध है कि दे नियमित रूप से पका देवसाइटों को देखते वहें क्योंकि निरिधाओं के स

संक्रिप्त रोजन्पर सुराजा संक्रम्प MAI-17011(2/2024-ADMIN RECTT - दिखंक 06/08/2024 recognition of the state of the

action and the defines a securities after the artist and a security and a securities after a securities and a secur												
ŭ	uluc	200	NC AC GOVE	affects	E	400	Taga	Course see	100	400	Burge	of says
1	01,024	Babban (MA)	firm dist			Alexa - ((Mathemat) abeliat - ((Delen)						d Backwarden
2	COCH	unte unte altera (ennea)	(bruraliar) scioo-177500j	अधाउँ जीवा स्त्री		-				-		
Ĩ	00M24		(forer affair) 10480-112400)	alto wil		1	ė	\$	26	ŧ	88	8
4	04/24	en en abed	(600 day) 1540-1540	50 tol 2 albur out	8	1	2	-6	- 6		**	
3		ga feces after	(Store affer) 33400 (13400)	after ad	,	*	1:	题	•	*	68	- 5
0	06/24	क्ष्या कार्य	(from allar) (from allar) (meso, at 190)	11 को है जीव को	0	5	-					1
7	07/94	MACO Date del	(firm offer) (2000-41100)	अ कर है जीक स्था	3			-	1.5	1	*	-
•	DISCH	2011 JELEN 2020	(\$100.2 (\$100.2\$10) (\$100.4500)	अपनि कर्ति स्रोतक कर्ति	,	3	18	35	10	*	St	35
•	08/24	que int	(firm aller) (firm aller) (mono-allero)	after self	1		-	200		-	(**	-
	1004	सर्गी एडीक्स अप्रक (ध्योक्स)	(form affair) (form affair) (spect-spect)	335 100	15	2	•	•	310	*	•	- 83
11	1104	maner (Delter Stations) and estimates without response	(80480-113460) (80480-113460)	श्चेत्र हो जीव को	•	egan 201 Billion 201 - 20 Sentembry Billion - 1,0 - active statistischen 3 sand - 1,6 - album stategerens						

ethel to the operational of - cheste, and - use the

सास से द्वेष में पति की हत्या, पुलिस के सामने मांस निकालकर फेंका

annem discoust associate उत्तर प्रदेश के सकत्वाधार जिले से प्रकार कारी घटन सम्में आई हैं। सास में हुँच में महिला के सिर पर काता से दुष्ट में महाराज के तथा पर ऐसा खून संबाद हुआ कि पति का वित् कृत्याणकर हाला कर दी। पुरावत को मां के पर से खाणा खाकर लेटि पति पर पात लगाकर हमाना किया। ईट से गांबपुतींदु प्रतार करने के बाद तसके सीने पर बैहकर पोखती की धान इथावी प्रबाहने वर्तुचे तो पति के कृपले हुए सिर से मांस निकालकर उनको और फेंक दिवा ऐसा बीमाना उनका अन्य प्रकार पाना एका बागमा प्रदानक्ष्म देखकार पुलिस भी देन का वी क्यून मुन्दिकल में उस्ते काबू में करने के बाद धाने तो जावा गया। एएसपी सिटी संजय कुमार ने बताया कि अन्तेदित के किश्च द्वाच्यांकी

यंजीकृत को नई है। शहर मध्युर के हजीहा यांच निकास माहत्त्रकपुर के हरूदी बाव त्याका प्रोकेटर साल्याम की शर्दा की 24 को हो यह थे। पुलिस के अनुकार का नुका क्यों से लाग का अन्दि हो स्था था, इसलिस पानो समझे से विकाद होगा था। प्रोन् काला कहा हो बेटा विहाद व केटी पहिला में दाड़ी ता बढ़ा रातात व बढ़ा रहाम में हार मधुमान के घर में बहुने नाथी। घटनी सम्बद्धी पाठती भी कि आबुध अरंग रिभीणी से सेक्टियुल ससुर हरितम की पैटार साम मधुमाना अपने पास रखने के बजाय वसी है। इसको लेकर कई बार साम और पति पर दक्कव कराया हो तत्रानी हुई। दक्ष महोने प्रताने को दक्षने हरीनया मारकर पहि को प्राथमा कर दिशा पर। स्थानन वे कराया कि मुख्यन सुब्द सत्यात माँ के घर तथा था। देखन को समीसे तेकर अपने घर पहुंचा ती धार अवस् दरकारे के गेड़्ट कैंड्रे प्रता अनाए दरकात के पाड़ बेडर मार्थों में उसके सिंह पर हैंट के अंतर कर दिया। अधानक तमाने के का निरंती सर्वाची ने ताबहतींद्र कर्षे अंतर कर उसका सिंह कुपान दिशा और कीने पर बैटकर सिंह से मोस विकालका केंकने लगी। इस क्षेत्र क्यों से निकान को सेंकरमात दक्षिणों के धाना प्रचारी रेकिन कुमार में किसी तरहा उसे क्यों से हाउथा। धाने से लाने पर भी छन एवं सके।

कोर्ट का एम्ब्रेयर विमान सौदा मामले में सुनवाई आगे बढाने से इन्कार

जागरण संकारका, नई वेदली। यह अनित्म कोर्ड वे एक्केट विभाग वीटा एकेन्यू कोर्ड वे एक्केट विभाग वीटा में हुए कटाचार के मामाने में सुनवार्ड आगे अद्योग के उनकर कर दिया है। अराजत वे सीबीआई के आरोपण को असूब बतासा और करन् अधिकारों आह साल पुराने मामले में जांच पूरी करने की समय सीमा नहीं है सकते हैं। अदालत ने पानेंची को जांच की सिमीर निर्मेट पेश करने का निर्देश दिशा और कहा कि इसे चल

निर्देश दिन अंदि कहा कि इसे चार स्थान में पेता जान पारिया; विशेष न्यायाधील मेरेश राख में कहा कि इतया समय क्षेत्रों जाने के कार तक वर्षण समयम पहल दराव कार तक वर्षण रहता है. सकत्वपूर्ण सुब्दा को तरते हैं. सकत्वपूर्ण सुब्दा को तरते हैं. सकत्वपूर्ण करेंद्र अत्वीरात्रों को कर्मा न तक्तम केरेंद्र अत्वीरात्रों को कर्मा न तक्तम केरेंद्र अत्वीरात्रों को कर्मा न तक्तम कर्तर कार्रीयार्थं को कार्य न उपल्य क्षेत्र कार्य सुनवार्थं को कर्ताता का बाधना करून पर्दूता है। उन्होंने क्ष्म कि प्राकृतिक स्थाप और निष्पादा के सिद्धानि के आध्यक्षणा है कि मुख्यमा उमी शुक्त हो, याक अगराय और अक्ष्मी की साथी परपूर्वी पर कार्य पूर्व हो जाए। अप्रदेश हैं कि डीअवडीओं के साथ मीन विकासी के सीर्ट की स्थापित की क्षमी एम्बेबर के याथ में करने के लिए 5.76 प्रितिकार कार्योश्योध प्राप्त कर बिराक्षण दें यह भी क्षमीआप है विकास दी गई थी। बीबॉड्स में बोर्ने वर्ष एक जून को बन्दायत के समाने में हाथियार डीला अर्थोंक खन्त, अधिकाता गीतम खेतान और व्यक्ताची अनुध गुजा के विकास अरोहपत्र दावर किया था। अद्याल ने की वर्ष आरोपती के विकास अरोही का संस्था तिक था, लेकिन मुकटमा आने नहीं बढ़ राका क्योंकि सोबीआड़ ने अटानत को का नहीं बताना कि जांच पूर्व करने के लिए और कितना समल चालप्र सोबीआई ने अदालन से बसा कि जोय पत इसे हैं, व्योक्ति शिवापुर आजिल मूर्ण व मूके से पत्र गरीबत हैं।

PIMPRI CHINCHWAD MUNICIPAL CORPORATION CIVIL HO

TENDER NOTICE No: - CIVIL/GARDEN AND SPORT/12/1/2024-2025

45	Regarding the Royelly, the	a bound a series				doubor.			
Sr. No	Nama of work	Estimated cost put to the Tender (Ra) (4+6)	Material	(Re)	Material Testing Charges (Rs)	Earmeet money (Rs)	Security Deposit (Ra)	Time limit in calendar months	Gost of Tender Document of With GST (Non Refundable (Re.)
1	2	3	4		- 6	7			10
1	Development of Nisargian/ Sehinebal chaudher Prenisangnehelay inculuding all civil works Beautification works	240,216,068	238,493,073	1,068,719	722,995	1,201,080	12,010,810	15	37,430

Time table for the tenders shall be as follows:						
Online sale of tenders	*	Date- 09/06/2024 to Date- 23/06/2024				
Last date of aubmission of tenders	38	Date- 23/06/2024 up to 3.00 pm				
Pre Bld Meeting Date and Time	24	Date - 14/08/2024 at 4.30 pm				
Place of Pre Bid Meeting	3-	Add Commissioner - 2 Poms, PCMC Main Building Pimpri, Pune -411018				
Date of opening of tenders	190	Date - 25/06/2024 et 3.00 pm				

The Municipal Commissioner PCMC reserves the right to accept or reject any tender partially or completely without any reason thereof. The details of above works, such as Security Deposit, Earnest Money Deposit, Terms & Conditions of the Tender and Schedule of works, are evallable on web site www.pomdndia.gov.in, http://mahstenders.gov.in. In case of any

ADVT No: 101 No: ENGGYOVIL GARDEN & SPORT/16/311/2024 Date :- 06/06/2024



30 जून. 2024 को समाप्त विभाड़ी के अनकेक्टित एकल वितीय परिणान का सार्

			समाच वर्ष		
R.	Territoria (Control of Control of	30 Q/C	शास्त्र सिमारी अः सार्थः अक्षा	30 VEV.	55 70°E.
	F	er/fe/ber	arbitra	writing	awar.
T	swart it ign ans	92907.7%	17967.30	24997.58	196874.54
1	कर्ता ने तिए कुद् जम/(तरि) (कर और करकारामा को के पूरे	326.02	5690,81	202.15	4529.5
3	कार्य के जिल कर कुठे कुछ अप / हार्ड है है कि नावानक बते के स्वादा)	14.28	1908.57	302.16	3687.87
4	अवनि से तिए कर पायत कुद सार/(सर्गि)	10.86	1011,22	148.83	2733.11
	क्रमी से तिए कुछ माजक कार (पूर्णी क्रमी से किए राम/()हरी) (क्र प्रस्तात) पूर क्रम माजक कार (क्र प्रस्तात) सर्विक हैं।	(56.56)	1044.26	136.30	3610.54
	पुक्रत इतिनदी केल पूर्वी (प्रतिश कुल १९०/- आर्थ)	4130.53	4130.63	4190.53	4100.50
7	धनकित पूर्व भूवद्रांकर वास्त्रित अंधूकर	37700770	3.000000	117.05201	98000.01
	allyli allow may				235,10
	पुद्ध गुन				54100.54
10	मुख गुन पुन्ना नाम पूर्वि/स्थाना नाम नाम इतियो अनुसा				35314.50
11	श्रम इतिहारी अनुसार				4.6
13	mains (al) doc (fro/~ sobo) (cdfall nE) - grige 的 2 words 的	0.03	2.45 2.45	0.36	1.6
13	Ballet Ranger Rut	20000	10000	00000	120.71
14	wit the water argus				2.00
16	ecu de colu o-par (des)				2.64

R. W.			ALCOHOLD STREET			
	Rece	21 '07, 2024	as fitales,	31 VIVE, 2023	कारणा सर्वे 35 मार्च, 3684	
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	ATTRIBUT.	minimum.	militaria	MARKET	
1	प्रचलने से कुत कर	73997,81	27958.52	74309.10	155378.23	
3	अवसे से फिर् सुद्ध राज / (हर्ने) हेला और अपरायालक पर्य से पूर्व	406.86	1943.54	288.17	4902.66	
3	कार्ति के किए कर पूर्व कर अप / (क्रिकेश्वरद्धान्य गर्दी के पहादा)	00.09	1441.30	358.17	4001.81	
4	अमेरे से पिछ कर परवात कुछ राज्/(क्रिपे)	81.75	1125.68	212.48	3068.67	
1	कारी के जिए क्रम महत्त्व कार हुआे कारी के जिए जम / (कार्य) ज़र मन्द्रार्थ पूर्व कार्य महत्त्व कार (क्रम फन्दर्स) स्वतिक हैं।	18.17	1181.60	202.27	2974.12	
	कुला प्रक्रियों केटर मुझे (अकेट मुख्य रूप्त /- अकेट)	4100.03	4130.53	£130.53	4130.63	
7	बार्मित एर्र पुत्रयोकन बार्मित सोकार	27000000		30,00000	\$2970.00	
	कर्जन प्रति केन्द्र (१९०/- प्रत्येक) (सावित्री नहीं) ६. चुल्कुर हीं) इ. कदास्कृतिक हो)	0.20 0.20	2.73	0.51 0.01	7.42 7.40	

क्टील अर्थोरिटी ऑफ इंग्डिया लिमिटेड STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED इर कियी की डिल्प्यों से खुशा हुका है सेल

Registered office: I spot Blavers, Lodi Rood, New Delhi 110 003. Tel: +91 11.0-181491, Par. +91.15 04387015, E-mail: Innestativisi Televisit, versual Lodi Coloni Coloni Colonia La Televisit, La Tele

FEMARA TOWAR de ETI Soul Auto